



# बिहार गजट

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 12 पटना, बुधवार, 18 चैत्र, 1931 (श0)  
8 अप्रील, 2009 (ई0)

### विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-6	भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---	भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---	भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-1 ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---	भाग-9—विज्ञापन ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 7-9	भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण। ---	भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन, सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं, और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---	पूरक ---
	पूरक-क 11-12

# भाग-1

## नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचनाएं

15 दिसम्बर 2008

सं० 1/एल 1-10-20/2007-गृ०आ०-10445—श्री यशवन्त मलहोत्रा, भा०पु०से० (75), अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 26 अक्टूबर 2008 के अपराह्न से दिनांक 3 नवम्बर 2008 तक कुल 8 (आठ) दिनों की उपाजित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
धीरेन्द्र मोहन झा,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

15 दिसम्बर 2008

सं० 1/एल 1-10-08/2008-गृ०आ०-10447—श्री पी० कन्नन, भा०पु०से० (05), को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 5 मई 2008 से दिनांक 26 मई 2008 तक कुल 22 (बाईस) दिनों की उपाजित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
धीरेन्द्र मोहन झा,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

17 दिसम्बर 2008

सं० 1/पी०-10-13/2007-गृ.आ.-10568—श्री अजिताभ कुमार, भा०पु०से० (1997), पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी को स्थानांतरित करते हुए निदेश दिया जाता है कि वे पदस्थापन की प्रतीक्षा में पुलिस मुख्यालय पटना में योगदान दें।

सं० 1/पी०-10-13/2007-गृ.आ.-10569—श्री क्षत्रनील सिंह, भा०पु०से० (2005), अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति फाउंडेशन कोर्स अन्तर्गत को अपने ही वेतनमान में स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
अफज़ल अमानुल्लाह,  
प्रधान सचिव।

18 दिसम्बर 2008

सं० 1/पी०-10-13/2007-गृ.आ.-10586—श्री कुन्दन कृष्णन, भा०पु०से० (1994), पुलिस अधीक्षक, भागलपुर को पुलिस उप महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी०-10-13/2007-गृ.आ.-10587—श्री अमित कुमार, भा०पु०से० (1994), वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को पुलिस उप महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक वरीय पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-10588—श्री परेश सक्सेना, भा०पु०से० (1994), सहायक पुलिस महानिरीक्षक (निरीक्षण), बिहार, पटना को पुलिस उप महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक (वित्त/संचार), पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-10589—श्रीमती ए० एस० निलेकर, भा०पु०से० (1994), सहायक पुलिस महानिरीक्षक (क्यू), बिहार, पटना को पुलिस उप महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रोविजन), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है तथा श्रीमती निलेकर, पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-10590—श्री बलदेव प्रसाद, भा०पु०से० (1994), पुलिस अधीक्षक (सी०), अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को पुलिस उप महानिरीक्षक की कोटि एवं ग्रेड में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-10591—श्री उमेश कुमार, भा०पु०से० (KN-1995), पुलिस अधीक्षक, सिवान को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-10592—डॉ० अमित कुमार जैन, भा०पु०से० (1996), पुलिस अधीक्षक, बक्सर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, सिवान के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-10593—श्री नैयर हसनैन खान, भा०पु०से० (1996), पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-10594—श्री बच्चू सिंह मीणा, भा०पु०से० (1996), पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-10595—श्री विनोद कुमार, भा०पु०से० (Assam-1997), पुलिस अधीक्षक, नवादा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, बक्सर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-10596—श्री अवधेश कुमार शर्मा, भा०पु०से० (1998), समादेष्टा, बि०सै०पु०-10, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-10597—श्री अजय कुमार मिश्रा, भा०पु०से० (1998), पुलिस अधीक्षक, शिवहर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समादेष्टा, बि०सै०पु०-10, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-10598—श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, भा०पु०से० (1998), पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, कैमूर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-10599—श्री कुँवर सिंह, भा०पु०से० (1999), पुलिस अधीक्षक, सहरसा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-10600—श्री राजेश कुमार, भा०पु०से० (2003), पुलिस अधीक्षक, कैमूर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-10601—श्री निशांत कुमार तिवारी, भा०पु०से० (2005), पुलिस अधीक्षक, बगहा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-10602—श्री मो० अली सिद्दीकी, बि०पु०से०, पुलिस अधीक्षक, अररिया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक, शिवहर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं० 1/पी1-10-13/2007-गृ.आ.-10603—श्री दयानन्द कुमार, बि०पु०से०, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वारसोई को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में पुलिस अधीक्षक, बगहा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अफ़ज़ल अमानुल्लाह,  
प्रधान सचिव।

24 दिसम्बर 2008

सं० 1/एल 1-10-12/2008-गृ०आ०-10781—श्री सी० लीमा ईमचेन, भा०पु०से०, अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं एवं संचार, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवायें (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 29 दिसम्बर 2008 से 2 जनवरी 2009 तक कुल 5 (पाँच) दिनों का, उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
धीरेन्द्र मोहन झा,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

26 दिसम्बर 2008

सं०1/एल.टी.सी.-50-04/2008-गु.आ.-10821—श्री सुशील एम. खोपड़े, भा0पु0से0, राज्यपाल के परिसहाय, बिहार, पटना को स्वयं तथा उनके परिवार के सदस्यों यथा श्रीमती अर्चना खोपड़े, पत्नी एवं दो पुत्रों क्रमशः मास्टर चिन्मय खोपड़े एवं मास्टर अद्वैत खोपड़े के साथ ब्लॉक वर्ष 2006-2009 के अन्तर्गत एल.टी.सी. सुविधा हेतु गृह नगर के लिए नई दिल्ली से मुम्बई जाने एवं वापस आने की यात्रा (दिनांक 29 दिसम्बर 2008 से 10 जनवरी 2009 तक) की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
धीरेन्द्र मोहन झा,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

## निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

23 मार्च 2009

1. सं० ई2-2-24/2008-05-2423—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं०-1505 दिनांक 09.03.2009 द्वारा सेवा प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी/समकक्ष स्तर के पदाधिकारी श्री विजय कुमार सिंह (कोटि क्रमांक-803/08) को उप निर्वाचन पदाधिकारी, अररिया के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

श्री विजय कुमार सिंह का पदस्थापन अररिया में करते हुए मतदान (दिनांक 16.04.2009) समाप्त होने तक अरवल जिले में प्रतिनियुक्त किया जाता है। दिनांक 16.04.2009 को मतदान समाप्ति के पश्चात् श्री विजय कुमार सिंह अररिया जिला में वापस योगदान करेंगे।

2. सं० ई2-2-24/2008-06-2423—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं०-1505 दिनांक 09.03.2009 द्वारा सेवा प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी/समकक्ष स्तर के पदाधिकारी श्री अरविन्द कुमार झा (कोटि क्रमांक-807/08) को उप निर्वाचन पदाधिकारी, जमुई के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

3. अधिसूचना सं०: ई2-2-24/2008-07-2423—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं०-1505 दिनांक 09.03.2009 द्वारा सेवा प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी/समकक्ष स्तर के पदाधिकारी श्री स्वयम्भू प्रिय (कोटि क्रमांक-808/08) को उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

4. अधिसूचना सं०: ई2-2-24/2008-08-2423—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं०-1505 दिनांक 09.03.2009 द्वारा सेवा प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी/समकक्ष स्तर के पदाधिकारी श्री मिथिलेश कुमार साहू (कोटि क्रमांक-811/08) को उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

उपर्युक्त चारों पदाधिकारियों के पदस्थापन हेतु सेवा सौंपने के प्रस्ताव पर भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 434/1/बिहार-लो.स. /2009 प्र०-3729 दिनांक 04.03.2009 द्वारा अनापत्ति संसूचित है।

स्थानान्तरित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे पारगमन अवधि का उपभोग किये बिना नव पदस्थापन स्थल पर योगदान देकर अधिसूचित पद का अविलम्ब पदभार ग्रहण करें।

अधिसूचित किन्हीं उप-निर्वाचन पदाधिकारी को बिना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की पूर्व अनुमति के निर्वाचन को छोड़कर अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जा सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
राम कृष्ण प्रसाद,  
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार  
—सह-सरकार के उप सचिव।

## भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

12 नवम्बर 2008

सं०भवन/स्था.-1-अवकाश-301/08-9590—श्री राजेन्द्र प्रसाद साहू (कार्यपालक अभियंता) उपनिदेशक अनुश्रवण-1, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 228 के आलोक में दिनांक 11 जुलाई 2007 से 11 सितम्बर 2007 तक कुल 63(तिरसठ) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
चन्द्र किशोर सिंह,  
सरकार के उप सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

27 मार्च 2009

सं० ग्रा०वि०-2/स्था०-1-01/08-2326—बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों का स्थानांतरण/ पदस्थापन निम्नांकित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर किया जाता है :-

क्र० सं०	अधिसूचना संख्या	पदाधिकारी का नाम/ सेवा संवर्ग/ कोटि क्रमांक/गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान (प्रखंड एवं जिला)
1	2	3	4	5
1.	2320	श्री संजय कुमार, बि०प्र०से०, 973/08, भोजपुर	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से सेवा प्राप्त सम्प्रति जन संपर्क पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, पटना ।	प्रखंड विकास पदा०, अररिया सदर, अररिया
2.	2321	श्री प्रहलाद लाल, बि०प्र०से०, 1001/08, नवादा	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से सेवा प्राप्त सम्प्रति उपाधीक्षक, पशु गणना, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।	प्रखंड विकास पदा०, दिग्घलबैंक, किशनगंज
3.	2322	श्री सत्य प्रकाश, बि०प्र०से०, 1106/08, पटना	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से सेवा प्राप्त सम्प्रति उप सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना ।	प्रखंड विकास पदा०, बिहारीगंज, मधेपुरा
4.	2323	श्री ऋषिदेव झा, बि०प्र०से०, 764/08, अररिया	प्रखंड विकास पदा०, दिग्घलबैंक, किशनगंज ।	प्रखंड विकास पदा०, रामगढ़ चौक, लखीसराय
5.	2324	श्री रविन्द्र नाथ गुप्ता, बि०प्र०से०, 1252/08, वैशाली	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से सेवा प्राप्त सम्प्रति सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी, बन्दोवस्त कार्यालय, पटना ।	प्रखंड विकास पदा०, मंसूरचक, बेगुसराय
6.	2325	श्री अजय कुमार तिवारी, बि०प्र०से०, 1278/08, पटना	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से सेवा प्राप्त सम्प्रति सहायक निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना ।	प्रखंड विकास पदा०, बरियारपुर, मुंगेर
7.	2326	श्री कुमार अनिल सिन्हा, बि०प्र०से०, 1286/08, जहानाबाद	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से सेवा प्राप्त सम्प्रति सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी, पटना ।	प्रखंड विकास पदा०, देसरी, वैशाली

2. उक्त प्रस्ताव में भारत निर्वाचन आयोग की अनापत्ति संसूचित है ।
3. उपर की अधिसूचनाओं एवं इसके पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं में कोई विरोधाभाष हो तो वर्तमान में निर्गत अधिसूचना ही प्रभावी होगी और एतद् द्वारा उनसे संबंधित पूर्व के अधिसूचना विलोपित की जाती है ।
4. स्थानांतरित/ पदस्थापित पदाधिकारी लोक सभा आम चुनाव को देखते हुए बगैर पारगमन काल का उपभोग किये अविलंब विरमित होकर अपने नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देकर प्रभार ग्रहण करेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ह०)-अस्पष्ट,

सरकार के उप-सचिव।

30 मार्च 2009

सं० ग्रा०वि०-2/स्था०-1-07/08-2416—बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों का स्थानांतरण/ पदस्थापन निम्नांकित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर किया जाता है :-

क्र० सं०	अधिसूचना संख्या	पदाधिकारी का नाम/सेवा संवर्ग/ कोटि क्रमांक/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान (प्रखंड एवं जिला)
1	2	3	4	5
1.	2415	श्री दिनेश कुमार राय, बि०प्र०से०, 1014/04, रोहतास	योजना पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, (मुख्यालय) अधिसूचना सं०-1981 दिनांक-21.03.09 के द्वारा प्रखंड विकास पदा०, राघोपुर (वैशाली) के लिए अधिसूचित ।	अधिसूचना सं०-1981 दिनांक-21.03.09 को विलोपित किया जाता है ।
2.	2416	श्री निशीथ वर्मा, बि०प्र०से०, 981/08, नालंदा	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से सेवा प्राप्त सम्प्रति सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, पटना ।	प्रखंड विकास पदा०, राघोपुर(वैशाली)

2. उक्त प्रस्ताव में भारत निर्वाचन आयोग की सहमति संसूचित है ।
3. उपर की अधिसूचनाओं एवं इसके पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं में कोई विरोधाभाष हो तो वर्तमान में निर्गत अधिसूचना ही प्रभावी होगी और एतद् द्वारा उनसे संबंधित पूर्व के अधिसूचना विलोपित की जाती है ।
4. स्थानांतरित/ पदस्थापित पदाधिकारी लोक सभा आम चुनाव को देखते हुए बगैर पारगमन काल का उपभोग किये अविलंब विरमित होकर अपने नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देकर प्रभार ग्रहण करेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह०)-अस्पष्ट,

सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट, 3-571+10-डी०टी०पी०।

## भाग-2

### बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश अधिसूचनाएं और नियम आदि।

ऊर्जा विभाग

अधिसूचनाएं

23 मार्च 2009

सं० प्र-1-रा0स्था-02/2009-03-915—राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया (लि०), एन०एच०पी०सी० (लि०) एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कराये जा रहे ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य तथा निर्मित विद्युत उपकेन्द्रों के तकनीकी मूल्यांकन एवं सत्यापन हेतु भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-162 के अन्तर्गत बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में पदस्थापित स्नातक योग्यता धारण करने वाले विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को विद्युत निरीक्षक नियुक्त करते हुए तीन माह के लिए उन्हें विद्युत निरीक्षक की शक्ति प्रदान की जाती है।

2. विद्युत निरीक्षण के लिए लेवी ऑफ फीस के तहत आवश्यक राशि ऊर्जा विभाग के विद्युत निरीक्षक के पदनाम के मद संख्या-मुख्य शीर्ष-0043 बिजली पर कर और शुल्क लघु शीर्ष- 102 भारतीय बिजली नियमों के अन्तर्गत विद्युत बोर्ड जमा करेगा। जमा करने का प्रमाण पत्र विद्युत निरीक्षक, बिहार, पटना को भेज देंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०)-अस्पष्ट,  
सरकार के अपर सचिव।

24 मार्च 2009

सं० प्र-1-ग्रा वि०-01/2009-04-917—राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, बिहार, सरकार की अध्यक्षता में गठित समन्वय समिति की दिनांक- 26.12.2008 को हुई बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में इस कार्यक्रम/ योजना के तहत प्राप्त प्राक्कलन के परीक्षण हेतु निम्न प्रकार से समिति का गठन किया जाता है—

1. प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार	—	अध्यक्ष
2. अपर वित्त आयुक्त (व्यय)वित्त विभाग, बिहार सरकार	—	सदस्य
3. अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना	—	सदस्य
4. मुख्य विद्युत अभियंता, ऊर्जा विभाग	—	सदस्य
5. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० पटना के प्रतिनिधि	—	सदस्य
6. एन० एफ० पी० सी०, पटना के प्रतिनिधि	—	सदस्य

इस समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०)-अस्पष्ट,  
सरकार के अपर सचिव।

(सं० मं०-01/आर०-03/2009/343)  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संकल्प

5 मार्च 2009

राज्य सरकार द्वारा दो विभागों या विभिन्न विभागों के बीच या विभिन्न विभागों के लोक-उपक्रमों के बीच के विवाद के निपटारे हेतु एक समिति का गठन किया जाता है जो निम्न प्रकार होगी :-

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. मुख्य सचिव                            | — | अध्यक्ष |
| 2. विकास आयुक्त                          | — | सदस्य   |
| 3. प्रधान सचिव, वित्त विभाग              | — | सदस्य   |
| 4. सचिव, विधि विभाग                      | — | सदस्य   |
| 5. प्रधान सचिव/सचिव (संबंधित विभागों के) | — | सदस्य   |
2. विवाद से संबंधित विभाग समिति को सचिवालय सहायता उपलब्ध करायेंगे।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना हेतु "बिहार गजट" में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
गिरीश शंकर,  
सरकार के प्रधान सचिव।

भवन निर्माण विभाग

शुद्धि-पत्र

21 नवम्बर 2008

सं.-भ./स्था.-पी.-3-पदस्थापन-05/01(अंश.)-10020—श्री सुधांशु कुमार सिंहा, सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण, भवन अंचल, पटना जिनका स्थानान्तरण भवन निर्माण विभाग के अधिसूचना सं.-347(भ.), दिनांक-11.01.07 के द्वारा गुण नियंत्रण प्रमंडल, मोतिहारी में किया गया था, के स्थान पर गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, भवन प्रमंडल मोतिहारी पढ़ा जाय।

2. श्री प्रमोद कुमार सिंहा, सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण संरचना प्रमंडल सं.-1, पटना जिनका स्थानान्तरण भवन निर्माण विभाग के अधिसूचना सं.-349(भ.), दिनांक-11.01.07 के द्वारा गुण नियंत्रण प्रमंडल, छपरा में विभाग गया था, के स्थान पर गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, भवन प्रमंडल, छपरा पढ़ा जाय।

3. श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण भवन अवर प्रमंडल, पटना पश्चिमी प्रमंडल, दानापुर जिनका स्थानान्तरण भवन निर्माण विभाग के अधिसूचना सं.-350(भ.), दिनांक-11.01.07 के द्वारा गुण नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा में किया गया था, के स्थान पर गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल संरचना प्रमंडल, दरभंगा पढ़ा जाय।

4. श्री रामाशीष प्रसाद, सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, पूर्णिया जिनका स्थानान्तरण भवन निर्माण विभाग के अधिसूचना सं.-351(भ.), दिनांक-11.01.07 के द्वारा गुण नियंत्रण प्रमंडल, पूर्णिया में किया गया था, के स्थान पर गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल, भवन अंचल, पूर्णिया पढ़ा जाय।

उपरोक्त सभी स्थानान्तरित/पदस्थापित सहायक निदेशक, अंचल स्तर पर प्रयोगशाला में कार्य करेंगे, तथा निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता की जाँच करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
चन्द्रेश्वर प्रसाद,  
सरकार के अवर सचिव।



भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

शुद्धि-पत्र

5 दिसम्बर 2008

सं० भवन/स्था.-1-विविध-724/07-10603—श्री रमेश कुमार दुबे, सहायक अभियंता, जिन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या-4590(भ.), दिनांक-12.06.08 द्वारा भवन अवर प्रमंडल संख्या-1, अरवल में पदस्थापित किया गया है, को चिकित्सीय कारणों के परिप्रेक्ष्य में पूर्ववत सहायक अभियंता भवन निरूपण अंचल संख्या-1, पटना के पद पर बने रहने की स्वीकृति दी जाती है।

2. अधिसूचना संख्या-4590(भ.), दिनांक-12.06.08 इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एच. एन. झा,

सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 3-571+500-डी0टी0पी0।



# बिहार गजट का पुरक(अ0) प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचनाएं

27 मार्च 2009

सं० 3/आ2-148/08-197—सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं० 16957/08 — राकेश कुमार चौधरी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 19.03.2009 को पारित न्यायादेश के आलोक में वादी श्री राकेश कुमार चौधरी, जिला शिक्षा अधीक्षक, गोपालगंज, जिन्हें विभागीय अधिसूचना सं० 939 दिनांक 30.09.2008 के द्वारा निलंबित किया गया था, के निलंबन आदेश को स्थगित किया जाता है । फलस्वरूप श्री चौधरी अपने पूर्व पद पर पूर्व की तरह बने रहेंगे ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
अनिल कुमार वर्मा,  
निदेशक (प्र०)—सह—संयुक्त सचिव ।

30 मार्च 2009

सं० 3/आ2-03/05-199—श्री नरेश प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रभारी सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना सम्प्रति सेवा निवृत्त, प्राचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बिहिया, भोजपुर के उनके प्रभारी सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के पदस्थापन काल में श्री विजय कुमार वर्मा, स्टाम्प विक्रेता, पटना जी० पी० ओ० के जन्म तिथि के सत्यापन में लापरवाही बरतने एवं बिना संतुष्ट हुए गलत जन्मतिथि को प्रमाणित करने के आरोप में विभागीय संकल्प संख्या 209 दिनांक 13.04.2006 के द्वारा उनके विरुद्ध सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन कन्ट्रोल एवं अपील) रूल्स के नियम 55 के अनुसार विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।

2. विभागीय कार्यवाही में नियुक्त जाँच एवं संचालन पदाधिकारी निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 324 दिनांक 06.11.2006 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दण्ड निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने की अवधि के बीच में ही दिनांक 30.06.2007 को श्री श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उक्त विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प सं० 837 दिनांक 07.12.2007 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43(बी) के अधीन सम्पूरित किया गया ।

3. विभागीय कार्यवाही में नियुक्त जाँच एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के लिये सरकार द्वारा उनके पेंशन की राशि से 10 प्रतिशत की कटौती का निर्णय लिया गया । उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 845 दिनांक 17.12.2007 द्वारा आरोपी श्री नरेश प्रसाद श्रीवास्तव से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी ।

4. आरोपी श्री श्रीवास्तव के पत्रांक 01 दिनांक 29.12.2007 द्वारा प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षोपरान्त उनमें नया तथ्य नहीं पाये जाने के कारण सरकार द्वारा उनके उत्तर को अस्वीकृत करते हुए श्री नरेश प्रसाद श्रीवास्तव के विरुद्ध निर्धारित दण्ड पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती को बरकरार रखा गया । विभागीय पत्रांक 217 दिनांक 04.03.2008 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से दण्ड के बिन्दु पर आवश्यक परामर्श माँगी गयी ।

5. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 3336, दिनांक 02.12.2008 द्वारा प्राप्त प्रतिउत्तर की कटौती के बारे में प्रस्तावित दण्ड को आरोप के परिपेक्ष्य में अधिक मानते हुए उससे असहमति व्यक्त करते हुए 5 प्रतिशत (पाँच प्रतिशत) की कटौती का परामर्श दिया गया। परन्तु आयोग ने अपने परामर्श में दण्ड को कम करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है।

6. चूँकि विभागीय कार्यवाही में श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये गये हैं। अतः सरकार द्वारा आयोग के परामर्श को अस्वीकार करते हुए आरोपित पदाधिकारी श्री नरेश प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन प्रभारी सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना सम्प्रति सेवा निवृत्त प्राचार्य, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, बिहिया, भोजपुर को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 (क) उनके पेंशन से 10 प्रतिशत (दस) कटौती करने का निर्णय लिया गया है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से  
अनिल कुमार वर्मा,  
निदेशक (प्र०)-सह-संयुक्त सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

25 मार्च 2009

सं० कौन भी-901/08-63—बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य-कर उपायुक्त श्री लक्ष्मी नारायण प्रसाद को वाणिज्य-कर अंचल, किशनगंज के पदस्थापनकाल में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं कतिपय अन्य आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं०-436 दिनांक 10.12.07 द्वारा निलम्बित किया गया। अनधिकृत अनुपस्थिति, निर्धारित राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहीं करने एवं व्यवसायियों का उत्पीड़न करने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय सकल्प सं०-454 दिनांक 14.12.07 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार के संचालन में श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करायी गयी।

जाँच संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं C.W.J.C No.-1820/2008 लक्ष्मी नारायण प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 23.06.08 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में इन्हें आदेश की तिथि से निलंबन मुक्त करते हुए निम्नांकित निर्णय लिया जाता है:-

1. श्री प्रसाद को निन्दन की सजा दी जाती है जिसकी प्रविष्टि उनकी चरित्र-पुस्ति के वर्ष 2007-08 में की जायेगी।
2. इनकी तीन वार्षिक वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती हैं।
3. इन्हें निलंबन की तिथि से दिनांक- 26.10.08 तक जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा तथा दिनांक 27.10.08 के प्रभाव से पूर्ण वेतन देय होगा।
4. श्री प्रसाद को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य-कर उपायुक्त, बिहार पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
शुभकीर्ति मजुमदार,  
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट का पूरक (अ०), 3-571+10-डी०टी०पी०।